

प्रेस विज्ञप्ति थाना एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग जनपद गोरखपुर दिनांक 28.05.2022

नाबालिग बच्चों को नशे के उपयोग हेतु सुलेशन ट्यूब बेचने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी जनपद गोरखपुर श्री जयनारायण शुक्ल व हमराह कर्मचारीगण द्वारा दिनांक 27.05.2022 को मुखबिर की सूचना पर नाबालिग बच्चों को नशे के उपयोग हेतु सुलेशन ट्यूब बेचने वाला 01 नफर अभियुक्त रवीन्द्र निषाद पुत्र रामनरेश निषाद निवासी प्रजापति पुर थाना धनघटा जिला संतकबीरनगर हाल पता ग्राम रूस्तमपुर दुर्गा मन्दिर गली पोस्ट न्यू शिवपुरी कालोनी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को 13 अदद सुलेशन ट्यूब व नाबालिग बच्चों को सुलेशन ट्यूब बिक्री का कुल 920 रूपए सहित धर्मशाला पुल अन्डर पास रेलवे क्रॉसिंग पीपल के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 01/2022 धारा 77/78 किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

रवीन्द्र निषाद पुत्र रामनरेश निषाद निवासी प्रजापति पुर थाना धनघटा जिला संतकबीरनगर हाल पता ग्राम रूस्तमपुर दुर्गा मन्दिर गली पोस्ट न्यू शिवपुरी कालोनी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

धर्मशाला पुल अन्डर पास रेलवे क्रॉसिंग पीपल के पेड़ के पास दिनांक 27.05.2022 समय 15.40 बजे

अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण-

- 1- 13 अदद सुलेशन ट्यूब
- 2- नाबालिग बच्चों को सुलेशन ट्यूब बिक्री का कुल 920 रूपए

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद-

1. प्र0नि0 जय नारायण शुक्ल थाना एएचटी जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता थाना एएचटी जनपद गोरखपुर।
3. हे0का0 मो0 आफताब थाना एएचटी जनपद गोरखपुर।
4. का0 रामअवध यादव थाना एएचटी जनपद गोरखपुर।
5. का0 सतीश जायसवाल थाना एएचटी जनपद गोरखपुर।